FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED

(CIN: L85110PB1989PLC045948) Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali-160062 Tel: 0172 5096001; Fax No: 0172 5096002

Website: www.fortismalar.com; Email: secretarial.malar@malarhospitals.in STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023**

textiles and industries limited

		Consolidated	
Particulars	Quarter Ended September 30, 2023 (Unaudited)	Six Months Ended September 30, 2023 (Unaudited)	Quarter Ended September 30, 2022 (Unaudited)
Revenue from Operations	1,814.91	3,590.98	2,329.43
Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(178.87)	(471.31)	(73.11)
Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(178.87)	(471.31)	(73.11)
Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(179.34)	(472.18)	(437.92)
Total Comprehensive loss for the period (Comprising loss for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)	(182.31)	(484.79)	(427.20)
Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (as at March 31, 2023)	NA	NA	NA
Earnings Per Share (face value of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) -			
(a) Basic	(0.96)	(2.52)	(2.34)
(b) Diluted	(0.96)	(2.52)	(2.34)

	Standalone						
Particulars	Quarter Ended September 30, 2023 (Unaudited) Six Months Ended Quarter Ended September 30, 2023 September 3 (Unaudited) (Unaudited)						
Revenue from Operations	1,814.91	3,590.98	2,329.43				
Loss Before Tax	(180.74)	(474.77)	(74.64)				
Loss After Tax	(180.74)	(474.77)	(439.06)				

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and six months ended September 30, 2023 submitted with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the Stock Exchange i.e www.bseindia.com and that of the company at www.fortismalar.com.

> Fortis Malar Hospitals Limited For and on Behalf of Board of Directors

Sd/-Chandrasekar R. Whole Time Director DIN: 09414564

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED

CIN: L51909DL1983PLC016907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

Tel. No.: 011-45795002 Fax: 011-23755264 Email: compliance@blsinternational.net, Website: www.blsinternational.com Statement Of Unaudited Consolidated & Standalone Financial Results For The Quarter And Half Year Ended September 30, 2023







MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF RESULTS

- . The company continues to witness strong operating results. For the quarter ended September 30, 2023, company's consolidated revenue rose 14.3% YoY to Rs. 407.7 Cr. while operating EBITDA witnessed a growth of 52.7% to Rs. 86.7 Cr.
- 2. The company's operating EBITDA margins continue to be in excess of 20%, primarily driven by an improved business mix, specifically in the Visa & Consular services seament. 3. Management is focused on improving profitability and cash generation as key business performance metrics; the Company continues to be a debt-free company
- with cash on books at ~ Rs. 687 Cr. t. Given the asset-light nature of the business, the company has been able to generate significant returns for its shareholders: ROCE at 35.5% & ROE at 34.6%
- (based on H1FY24 annualized financials).
- 5. The company continues to be one of the World's Top 3 Visa & Consular Services companies. Amongst several others, the company processes Visa applications for Spain, Italy, Portugal, Germany, Thailand, Hungary, Morocco, India, Vietnam, Malaysia and Slovakia.
- 6 Growth Drivers:

Place: Chennai

Date: November 6, 2023

- a. Opening up of key geographies for travel & tourism
- b. Winning new contracts as well as tenders which are in the pipeline
- c. Increasing demand for value added services
- d. Potential Inorganic opportunities in both Visa & Consular and Digital Services segments

Consolidated financial results:-						(Rs. In Lakhs)	
		Quarter Ended Half Year Ended					
PARTICULARS	Sep 30, 2023 Unaudited	June 30, 2023 Unaudited	Sep 30, 2022 Unaudited	Sep 30, 2023 Unaudited	Sep 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited	
Total Income from Operations	40,773.67	38,348.78	35,683.98	79,122.45	62,966.43	1,51,618.88	
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	8,717.83	8,043.71	5,621.77	16,761.54	8,863.17	22,308.87	
Net Profit for the period (after tax& exceptional items)	8,199.60	7,098.93	5,098.77	15,298.53	8,168.82	20,426.58	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive							
Income (after tax)]	9,591.28	7,204.66	6,893.98	16,795.94	9,508.54	23,887.22	
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Re. 1/- each)							
Earning per Share (EPS)(not Annualised)							
(a) Basic EPS - Rs.	1.91	1.68	2.46	3.59	3.95	4.89	
(b) Diluted EPS - Rs.	1.91	1.68	2.46	3.59	3.95	4.89	

Key Standalone financial Information is as under :-

1. Noy damation infantial information is as under is								
		Quarter Ended	i	Half Yea	Year Ended			
PARTICULARS	Sep 30, 2023	June 30, 2023	Sep 30, 2022	Sep 30, 2023	Sep 30, 2022	March 31, 2023		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total Income from Operations	2,757.03	2,753.47	2,404.49	5,510.50	3,964.29	8,682.47		
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	1,575.70	295.67	876.88	1,871.37	2,512.60	4,661.59		
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	1,478.90	214.87	656.81	1,693.77	2,261.17	4,125.42		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising								
Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive								
Income (after tax)]	1,486.21	222.19	661.95	1,708.40	2,271.45	4,129.74		

- The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on 6th November, 2023. The Statutory Auditor of the company have carried out limited review as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges.
- 3. Group's subsidiary BLS E Services Ltd. (BLSE) has filed its Draft Red Herring Prospectus ("DRHP") with SEBI for the proposed Initial Public Offering ("IPO") of its 2,41,30,000 fresh equity shares as adopted in their meeting held on August 4, 2023. The subsidiary has further filed an addendum to DRHP on November 3, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year Ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly & Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.msei.in) and hosted on the company's website at (www.blsinternational.com).

Place : New Delhi Date: 6th November, 2023 For BLS International Services Limited Nikhil Gupta Shikhar Aggarwal Managing Director DIN No. 00195694

Jt. Managing Director DIN 06975729

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan) CIN: L17124RJ2005PLC020927 Tel:(07433)222052/82/90, Email: hoffice@sutlejtextiles.com, Website: www.sutlejtextiles.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER 2023 (5 in Crore)

Particulars	3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year		Year to date Figures for Previous Period Ended	Previous Accounting Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	30.09.2023			30.9.2023	30.09.2022	31.03.2023
Total Income from Operations	734.90	704.48	819.57	1439.38	1665.56	3074.23
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(75.62)	(44.90)	49.39	(120.52)	142.56	101.32
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(75.62)	(44.90)	49.39	(120.52)	118.90	64.94
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(49.44)	(30.49)	31.31	(79.93)	76.69	37.28
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(49.08)	(30.24)	31.89	(79.32)	77.97	39.74
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
Other Equity						1093.02
Earnings Per Share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)						
a) Basic:	(3.02)	(1.86)	1.91	(4.88)	4.68	2.28
b) Diluted :	(3.02)	(1.86)	1.91	(4.88)	4.68	2.28

Key information on Standalone Financial Results	3 Months Ended	Preceding 3 Months	Corresponding 3 Months	Year to date Figures	Year to date Figures	(₹ in Crore) Previous Accounting
Particulars		Ended	Ended in the Previous Year	for Current Period Ended	for Previous Period Ended	Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
Total Income from Operations	726.44	694.06	809.95	1420.50	1647.25	3039.17
Profit /(Loss) Before exceptional items and tax	(73.89)	(43.47)	50.61	(117.36)	143.09	107.02
Profit / (Loss) Before Tax	(73.89)	(43.47)	50.61	(117.36)	119.43	51.02
Profit / (Loss) After Tax	(47.71)	(29.06)	32.45	(76.77)	77.16	22.84
Total Comprehensive Income [Comprising Profit /(Loss)]	(47.47)	(28.81)	32.32	(76.28)	76.87	23.83
Notes:						

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 3 November 2023 and 6 November 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months and half year ended 30 September 2023 are available on Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website www.sutlejtextiles.com.

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED Place: Mumbai (Rajib Mukhopadhyay) Whole-time Director & CFO Date: 6 November 2023



PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025; Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023 (Rs. In Lakhs)

		STANDALONE CONSOLIDATED					
			STANDALON	NE	CONSOLIDATED		
SI. No.	Particulars	Quarter ended Sept 30, 2023	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2023	Quarter ended Sept 30, 2023	Quarter ended Sept 30, 2022	Year ended March 31, 2023
1	Total Income from Operations	39180.29	33832.99	133114.65	46,042.21	33,555.42	215,994.75
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	2590.97	2293.33	5688.25	1,759.96	1,074.50	9,754.32
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2590.97	2293.33	5688.25	1,759.96	1,074.50	9,754.32
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	1969.07	1752.25	4419.99	1,236.51	717.89	7,746.86
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1937.98	1756.12	4424.27	1,205.59	721.87	7,743.82
6	Equity Share Capital of Face Value Rs.10/- each	2602.46	2137.81	2274.26	2602.46	2137.81	2274.26
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2023	33577.6					37,318.52
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic	8.34	8.24	20.42	4.99	3.37	35.78
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Diluted	8.22	7.65	19.27	4.88	3.12	33.77

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

> For PG Electroplast Limited Vikas Gupta

Place: Greater Noida, U.P. Dated: 06th November, 2023

Managing Director-Operations









रलैंमर

'द रेलवे मेन' का ट्रेलर रिलीज, भोपाल गैस त्रासदी पर है बेस्ड



फिछले कुछ वक्त से आर माधवन अपनी वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' को लेकर सर्वियों में हैं। यह सीरीज इसलिए खास है क्योंकि इसके जरिए पिछले बुळ वकत से आर माध्यन अपनी येब सरिक्ष र हेल्ले मेर्न के लेकर सुखियों में डि. यह सरीडा इस्तिल खब्त है क्योंहि इस्ते जरिए माध्यन ओरीटी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। यह यराराज फिरम्स की भी पहली जेब सरितिज है। इस्ते बिके मेरन, दिल्युँद पूर्मा और बाबिल खान में मुख्य भूमिकाओं में नजर आशी। अब इस सरीविज को टूल सामने आ चुका है, जिसकी बहानी मध्य प्रदेश के भोषाल में 2-3 दिसंबर, 1984 में हुए दर्दनाक हादसे भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत के के मेनन से होती है, जो भोपाल रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के रूप में काम के मेनन से होती है, जो भीपाल रेलने स्टेशन पर टिकट चेकर के रूप में कम करते हैं। वहीं, व्यक्ति एक नए लोको परफ्टट के रूप में नजर आते हैं। दिव्येंद्र स्टेशन पर तैनात एक कर्मवारी बने हैं। इसमें कुत 4 पिप्पोड होंगे। माध्वन भारतीय रेलने के एक अधिकारी के रूप में दिव्यई दोते हैं, जो लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। जूड़ी चाक्ता भी एक राजनेता की भूमिका में हैं। सीठा में दिव्यया गया है कि कैसे आम आस्त्री लोगों की जान बचाने के लिए एक साथ आते हैं। 'दे लंको मेन' का प्रीमिश्त 18 नर्ककर को ओटोटों ारए एक सबि आता है। दूरण भग का आमल्या है। नक्यर का आद्रार पर्ट्यपूर्वी नेटिशक्का पर होगा। नेटिशक्का ने हेलर ऐसर कर तिखा... एक विशाल मानबीय जासदी को रात कुछ लोगों को ताक़त, लाबीरोमा और बलिदान की बहागी का गवाह बनीं ! इसकी वहागी आयुव पुना ने लिखी है। निर्देशक रहुत रहेले के बेटे शिव खेल इससे अपने निर्देशन कैंस्टिंग की सुरुआत कर रहे हैं।

'सालार' की रिलीज डेट में नहीं होगा बदलाव, 'डंकी' से क्लैश होना तय

प्रभास इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सालार' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 22 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी। इसका ट्रेलर नवंबर के आखिर या दिसंबर नवबर के आखिर या दिसकर की शुरुआत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना शाहरुख खान की 'डंकी' से होगा। हालांकि, पिछले कुछ दिनों ऐसी चर्चा है कि निमांता 'सालार' की रिलीज डेट में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नई



योजना बना रहे हैं, लेकिन इन खब्ते में कोई प्रचाई नहीं हैं। 'सालार' अपनी निश्वीरता दिलीज डेट 22 नवंबर को ही स्लिज होगी। इसका टीजर पहले ही सामने आ चुका है। दूसरी और, शाहरूख की 'डेकी' की बात करें तो फिरन्स का पहला टीजर उनके जन्मदित (2 नवंबर) को स्लिज किया गया था, जिस्से सोच्या गाँडिया पर कामी पसंद किया गया। अब दर्शक 'डेकी' के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। कफा प्यस्त क्या गया। अब दशक डका के दुरंग का इतगार कर रहे। 'सालार' का निर्देश प्रशान तीन ने क्या है, उनकीड इसके निर्माण दिवस किरांसुर ने किया है। फिरम में श्रुति हासन, टीनू आनंद, श्रिया रेही और जगादी नाब भी अध्य मुक्तिकाओं में नजर आने वाले हीं हसके प्रोडक्ता में कुट्टे एक सून ने कहा. 'साला र- सीकाल प्रेड मी ही कि 5 वर्ष पहले उन्होंने क्रिक्सम्स पर (लिज करने का एक कारण ग्रह भी है कि 5 वर्ष पहले उन्होंने केजीएर 1' को भी क्रिक्सस विकारंड पर (लिज) कि निया था और उन्हें लगात है कि वह सहीं सम्बन्ध हैं। 'बहां 'क्डी 'क्वी 'क्रिक्स र स्वान्तमा हिराना ने किया है। यह हिरानी फिल्प्स और रेड चिलीज के कैस तले बनी हैं।

आज रिलीज होगा 'सैम बहादुर' का ट्रेलर, नया पोस्टर भी हुआ आउट



'पगला घोडा' में एक्ट करना एक सपने के सच होने जैसा था: विक्रम



नाटककार और थिएटर निर्देशक बादल सरकार ने 1962 में 'पगला घोड़ा' नामक नाटक लिखा था। ये नाटक आज भी प्ले किया जाता है। हाल हो में इसे जी थिएटर पर टेलीप्ले के रूप में थिएटर पर टेलीप्ले के रूप में दिखाया गया। इसमें एक्ट करते वाले विक्रम कोचर का कहान हैं कि 'बादल सरकार के इस नाटक में काम करना उनके लिए एक स्पेति के सच होने जैसा था। हर गंभीर अभिनेता को कम से कम एक बार बादल जी के नाटक में अभिनव करने की इच्छा जरूर होनी हैं। एक्टम उम्माज उम्माज

अभिनय करने की इच्छा जरूर औफ ड्रामा से स्नातक हैं और उन्होंने 'चूना' और 'स्वतांचल' जैसे सफल ओटीटी शोज के साथ-साथ 'मनमर्थिया', 'केसरी' और 'एंग्री इंडियन गडिस्सी' कैंपी फिट्मों में अभिनय थी किया है। वे कहते हैं... 'पणला घोड़ा' की कहानी तब शुरू होती है जब चार लोग एक अज्ञात महिला के शय की आग के हवाले करने के लिए रमशान घाट में इकड़ा होते हैं और फिर जो घटता है जो पिएसना और विशाल मर्दानाी पर एक तीखी टिपपणी है जो दशकों को सामाजिक और लैंगिक असमानताओं के बारे में सोचने के लिए मजबर करेगी।

दैनिक भारकर

कार्यक्रम • रैली में झालावाड शहर के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया

भारकर न्यूज | झालावाड

विधानसभा चुनाव 2023 के महेनजर आमजन को आगामी 25 नवंबर को मतदान के लिए जागरूक करने के उदेश्य से स्वीय अभियान के अंतरित सीमका को एककीय खेल संकुल से मिनी सिजवालय तक मीमका रेली को आयोजन किया गया। मीमका रेली को आयोजन किया गया। मीमका रेली को प्रोहेख आईएएस सुभम भीमते एवं जिला परिषद के मुख्य कार्लकारी

भैसारे एवं जिला परिपद के मुख्य कार्मकरी, व्यक्तियों व तर्राथ रुपीरित ने हरी झंडी दिखाकर खेल संकुल से रखाना किया। जो न्यू ब्लॉक स्कृल से रखाना किया। जो न्यू ब्लॉक स्कृल से रहन, बास रहेड, जेल रोड, गृब परिसर, मंगलपुर, मृतिं चौराहा, मामा भांजा चौराहा होते हुए मिनी सर्विचालय आकर संकन्न हुई। रेली में आकरा संकन्न हुई। रेली में आकरा संकन्न हुई। रेली में आकरा संकन्न हुई। रेली में अलालाबड़ रहार के विभिन्न राजकार्य एवं निजी विचालयों के छान-छाजओं ने भागा किया। यह स्कृत किया। ाना । विद्यालया क छात्र-छात्राओ न भाग वित्या इस देंपन सुख्य जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुकुमचंद मीणा, सीएमएचओ हीं. जीएम. सैच्यर, जिला खेल अधिकारी कुमाशंकर शर्मा, स्वीप सह प्रभारी जीतमल नागर, शारीरिक शिक्षक अलीम बेग सहित विभिन्न राजकीत पढ़ों निजी विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाएं मीजूद रहे।







झालावाड़. खेल संकुल में मतदाता जागरूकता रैली में शामिल छात्राएं।

१६ से २२ नवंबर तक आयोजित होगा मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह

इपालावाड़ विकाससमा चुनाव 2023 में आमजन सुख कर्मकारी अभिकारी व त्यीर प्रभारी सेन्द्र व वारात, 18 नक्बंद को समाजेशी वॉक्श्यान, 19 की अभिक्त से अधिक भागीदारी सुनिरिचन सिंह पुरोहित ने बताया कि स्वीप अभियान के नक्बंद को दिव्यांग भतदाताओं द्वारा ट्राई करने व विशेष योग्यजन, इसलेबंद, घुमतु अंतरात आयोजित किए जाने वाले सत्तराती साईक्टर लिंग, 20 नक्बंद को युवा मतदाताओं का जाताति, सीहणा पूर्व मानदाताओं एक अध्यस स्वतरातों को सैंदित करने के द्वारा 16 नक्बंद को प्रसाद के हिए से सीहित्य लिंग से प्रदेश स्वतरात के स्वतरा के तहत 16 से 22 इत्हमकारीय सीहद इतलरायदन में लिंग क्यों के लिए सोहित्य हैंचे तो तथा 22 नक्बंद को कंदुसभा के तिए स्वति तथा जाएगा। जिला परिषद के मजदूर वर्ग के लिए स्वत्रिक सीहद हैंचे नवेंद्र से स्वतराता जागरक्वता सतरारी सरावा किया वर्ष के सिहर सुनिरायदन में लिंग क्या 22 नक्बंद को चंद्रभा का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद के मजदूर वर्ग के लिए स्वृक्किस, 17 नक्बंद को अधिकत व नदी झालरापादन मेंदिर से सम्बद्ध के विश्व स्वृक्किस के स्वतरात को स्वतरात जागरक्वता सतरारी सरावा किया जाएगा।

व्यापारियों व सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई

कस्बे के थाना परिसर में सोमवार शाम को व्यापारियों और सीएलजी सदस्यों के साथ थाना प्रभारी मानसिंह हाड़ा की अध्यक्षता में

मानसिंह हाड़ा की अध्यक्षता में बैटक आयोजित की गई। जिसमें आयोजित की गई। जिसमें आयोजित की गई। जिसमें आयोजित की गई। सार्वा अव्यव्या अव्या अव्यव्या अव्या अव्यव्या अव्यव्या अव्यव्या अव्यव्या अव्यव्या अव्यव्या अव्यव्य अव्यव्या अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था अवस्था अव्यवस्था अवस्था अवस्या अवस्था अव लिए करीब दो लाख रुपए की लागत के प्रस्ताव भिजवाने की सरपंच योगेश सहरिया ने सहमति

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनने पर स्वागत किया



झालावाड. राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनने पर स्वागत करते समाज के लोग।

भास्कर न्यूज | झालावाड़

सर्व ब्राह्मण परशुराम सेवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने दीपिका शर्मा को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पद पर मनोनीत किया है।

स्वागत किया। इस दौरान युवा प्रकोच्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितन शर्मा, प्रदेश संयोजक जगदीश शर्मा, प्रदेश संरक्षक प्रेमजी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप तिवारी, युवा प्रकोच्ठ प्रदेश संगठन महामंत्री

पुलिस ने 10 साल से फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा

बतांचा कि ऑगामी विश्वानसभा पुनाव को मध्यनजर रखते हुए स्थाई वारंटी, 29 सीजापीसी में बांडिन अपरिपियों की अपरकड़ के तह के तहत प्रस्ति अभियान के तहत प्रस्ति धनस्यान शामी के सुपरिजन में शाहाबाद डीएसपी हैमत गीतम के नेतृत्व में धानाधिकारी किरदार अहमन 2 प्रकरणों में पिछले 10 वर्षों से भगर चल रहे स्थाई बारंटी मध्यप्रदेश के पिंड निवासी राजेश शर्मा (44) पुत्र प्रमानिशन को मुखबिर खास की राजेश शर्मा (44) पुत्र रामिकशन को मुखबिर खास की सूचना पर आहेंसा सर्किल शाहबाद से गिरफ्तार किया है।

10 साल से फरार स्थाई चुनाव में आमजन को अधिक से अधिक मतदान वारंटी किया गिरफ्तार करवाना जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य : डॉ.सैय्यद

विधानसभा चुनाव 2023 के तहत जिले में चलाए जा रहे स्वीप अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में आमजन को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन सभागार में बैठक

स्वास्थ्य भवन सभागार म बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वीप सहप्रभारी ऋतुराज महत्ता ने की। बैठक में उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉ. लेखराज मालव, जीतमल नागर, जिले के समस्त ब्लॉक आशा फेसिलेटेट. पीएचसी आशा फेसिलेटेट, पीएचसी आशा सुपरवाइजर, जिला समन्वयक प्रभु ऐरवाल, धनवंतरी प्रजापति व हेमराज लोधा तथा प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 आशा सहयोगिनी एवं एएनएम



ने भाग लिया। बैठक में विभाग से संबंधित कार्मिकों, समूहों आदि के साथ ब्लॉक स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार जागरुकता के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दीरान उन्होंने सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित बोटर हैल्पलाइन एप्प, सी-विजिल एप्प, सक्षम एप्प, केबाईसी एप्प को

अधिक से अधिक लोगों से मोबाइल में डाउनलोड करवाने के लिए पाबंद किया। सीएमएचओ डॉ.जी.एम.सैय्यद ने बताया कि डा.जा.एम.संय्यद न बताया कि विभाग आमजन से अपील करता है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 25 नवंबर को अधिक से अधिक आमजन अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने मत का प्रयोग अवश्य रूप से करें।

सीएमएचओ ने पीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची

समीपवर्ती फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार को सीएमएचओ डॉ. संपतराज नागर ने

निरीक्षण किया।

इस दौरान अस्पताल परिसर में ओपीडी, लेबर रूम, दवा वितरण काउंटर, भर्ती वार्ड का अवलोकन किया। अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। अस्पताल में परिसर में नियमित सफाई को लेकर निर्देशित किया। वर्तमान मौसमी बीमारियों को लेकर डोर-टू-डोर



सर्वे की प्रभावी मॉनिटरिंग और निर्देश दिए। निशुल्क दवा और एंटीलार्वल गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। ओपीडी आईपीडी जांच योजना की जानकारी ली। इस दौरान बारां ब्लॉक इस दौरान बारां ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. अरविंद नागर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. बढ़ाने, गुणवत्ता पूर्ण सेवा देने एव आरसीएच एवं परिवार कल्याण

जलदाय विभाग की पाडपलाइन क्षतिग्रस्त व्यर्थ बह रहा पानी नारेड़ा संबलपुर ग्राम पंचायत के कल्याणपुर चौकी गांव में होकर

मोड्डा संकल्पुर ग्राम पंचायत के कल्याणपुर चीकी गांव में होकर निकल रही जलदाय विभाग की पाइण्लाहन शतिमस्त हो गई है। श्रीतम्हत पाइम का कथा बढ़ रहे पानी के कारण वाहन चालकों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करता पड़ रहा है। ठेकेदार को अवगत करने के बाद भी ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं देण रहा है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कर समस्या का समाधान करने की

बारां में दीप डेकोरेशन और मेहंदी प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग

अंग्रेजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नटराज नगर में दीप डेकोरेशन व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन महदा प्रतियागिता की आयोजन किया। प्रभारी सोनू कुमार मोरवाल ने बताया कि बच्चों ने दीपक पर शानदार पेंटिंग व सजावट की गई। साथ ही कागज पर मेहंदी की बेहतरीन कलाकारी से क्रिएटिविटी दिखाई। दीप डेकोरेशन में प्रथम

पर्वत प्रजापति व तीसरा स्थान आशु ने प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में संजना ने प्रथम, ज्योति ने द्वितीय, दिव्या ने तीसर स्थान प्राप्त किया। प्रथम तीन स्थान प्राप्त बच्चों को बेस्ट प्राइज वितरण भढ़दा आत्वागाता का आयोजन प्राप्त बच्चा का बस्ट प्राप्त जावतण किच्चा प्रभावी सीत्र कुमार मोरावाल किच्चा साथ ही क्रियोशित में भाग ने बताया कि बच्चों ने दीधक पर लोने वाले सभी बच्चों को प्रोत्साहन प्राप्तदार पिँटा व सत्ताबाट की गई। के लिए पेन भेंट किच्चा। इस दौरान साथ ही कागज पर मेहंदी की संस्था प्रभावी सीन् कुमार मोरावाल, बेहतरीन कलाकारी से क्रिपटिकटी अध्यापक रजनी ओहा, बलताम दिखाई। दीए डेक्सिएस में प्रथम भर्मा, संध्या मार्ग, गुं वसां, गूंच्या मार्ग, गुं वसां, गूंच्या प्रमा, संध्या मार्ग, गुं वसां, गूंच्या प्रमा, गुं वसां, गुं वसां, गूंच्या स्थान स्थान मधु पांचाल दूसरा स्थान करूयप व गावत्री उपस्थित रहे।

पांच-पांच सौ के 9 जाली नोटों के साथ दो युवक गिरफ्तार

दोनों आरोपी ढोलम निवासी, पुलिस जांच में जुटी

जुआ सहा, अवैध शराब बिक्री, जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की रोकथाम एवं पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के





मागालाल घोकड़ हांना बताया प्रमाभरोस उर्फ प्रामस्वरूप प्रमाभरोस उर्फ प्रामस्वरूप में 500-500 के कुल 05 नोट मिला जबकि मांगीलाल की तलाशी ली तो पायजामें के दाई जेब में 500-500 के 4 नोट मिला जिन्हें देखा व गवाहों को प्रमाया तो देखने व क्रमे में मांगी परखाया तो देखने व छूने से सभी नोट का जाली होना पाए गए। नोटों का अवलोकन किया, तो सभी नोटों को देखने व छूने से सभा नाटा का देखन व छून स कागज में अंतर मिला। 500 रुपए के नोट की पहचान संबंधी निर्देशों के अनुसार सुख्ता धागा में रंग हरे से नील में परिवर्तन नहीं हो रहा है। नोट पर दाई तरफ अंकित अशोक स्तंभ उभग हुआ नहीं है। रामभरोस उर्फ रामस्वरूप व मांगीलाल से 9 नकली नोटों को दूसरे ने ढोलम गांव निवासी जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।

शाहाबाद : बैठक में दी कृषि व सरकारी योजनाओं की जानकारी

प्रयत्न संस्थान की ओर से सहरिया समुदाय के लिए बैठक की गई। जिसमें जीएसएनपी

समुदाय के लिए बैटक की गई। परियोजना अधिकारी हैस्मराज जिसमें जीरसस्प्रमी एतस मेहता, डायरेक्टर रामखिलाड़ी, संस्थान और फाल संस्थान की सहस्यक परियोजना अधिकारी ओर से तहस्या समुदाय को ज्यादा संहित आनासामर, राजपूर, विकाइ से ज्यादा वृश्वेष आजनाओं तथा च्याड़ी, हाईता, चुकिया, मामेंनी, सरकारी योजनाओं से जोड़ने के खंडा साहरोतर, देवसी असेटी, दिल्ह प्रसासत रहने और आगामी सहरोला तलहर्दी, भीमला आदि योजनाओं को तेकस राहोदेशी तथा। गांजे के ग्राम किकास संगिति के सहरोग को लेकर चर्चा की गई।

शाहाबाद कस्बे में सोमवार को बैठक में जीएसएनपी प्लस संस्थान के अंगद यादव, प्रयत्न संस्था के परियोजना अधिकारी हेमराज

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER 2023

Preceding Corresponding Year to Year to Previous 3 Months 3 Months 1 Albert Space Sp Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 30.09.2022 31.03.2023 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.9.2023 Total Income from Operations 704 48 101.32 (75.62)(75.62) (44.90) 49.39 (120.52) 118.90 64.94 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (49.44) (30.49) 31.31 (79.93) 76.69 37 28 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (49.08) (30.24) 31.89 (79.32)77.97 39.74 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share) 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 1093.02 Earnings Per Share before / after extraordinary iten (of ₹ 1/- each) (not annualised) (3.02)(1.86)1.91 (4.88) 4.68 2.28

(3.02)	(1.86)	1.91	(4.88)	4.68	2.28
					(₹ In Crore)
3 Months Ended	Preceding 3 Months Ended	Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year	for Current	for Previous	Previous Accounting Year Ended
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
726.44	694.06	809.95	1420.50	1647.25	3039.17
(73.89)	(43.47)	50.61	(117.36)	143.09	107.02
(73.89)	(43.47)	50.61	(117.36)	119.43	51.02
(47.71)	(29.06)	32.45	(76.77)	77.16	22.84
(47.47)	(28.81)	32.32	(76.28)	76.87	23.83
	3 Months Ended Unaudited 30.09.2023 726.44 (73.89) (73.89) (47.71)	3 Months Ended Ja Months Ended Unaudited 30.09.2023 30.06.2023 726.44 694.06 (73.89) (43.47) (47.71) (29.06)	3 Months Freeding Corresponding 3 Months Ended 3 Months Ended in the Previous 2	3 Months Ended 3 Months Ended in the Proceeding 3 Months Ended in the Processor 1 Months Ended 1 Months 1 M	3 Months Ended Preceding Corresponding Shorth Corresponding Shorth Corresponding Shorth Corresponding Corr

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective on 3 November 2023 and 6 November 2023.

on a revenuet zucs and no inverneez 2023.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SSEI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months and half year ended 30 September 2023 are available on Stock Exchanges websites www.belendia.com and on Company's website www.stelledia.com.

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED